



## Riba Textiles Limited

(GOVT. RECOGNISED EXPORT HOUSE)

REGD. OFFICE : DD-14, NEHRU ENCLAVE,  
OPP. KALKAJI POST OFFICE, NEW DELHI-110019

TELEPHONE : (011) 26236986

FAX : (011) 26465227

CIN NO.: L18101DL1989PLC034528

Date: 01.09.2020

To,  
Corporate Relation Department  
**BSE Ltd.**  
25<sup>th</sup> Floor, Phiroze Jeejeebhoy Towers,  
Dalal Street Mumbai -400001

**Scrip Code: 531952/Equity**

Dear Sir(s)


**Sub: Submission of newspaper Publication Un-audited Financial Results in Compliance with SEBI (Listing Obligations and Requirements) Regulations, 2015.**

Incompliance with Regulation 47 of Listing SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015, Please find enclosed herewith Newspaper Publication of Un-audited Financial Results for the quarter ended on 30<sup>th</sup> June, 2020, published in "The Financial Express", English Newspaper & in "Jansatta" in Hindi Newspaper on 01<sup>st</sup> September, 2020.

We request you to please take the above on your record.

Thanking You,

Yours Faithfully,  
For **Riba Textiles Limited**

  
(Neha Dubey)  
Company Secretary  
M. No.: A46655



Encl.: As above



# पंजाब नेशनल बैंक

पंजाब नेशनल बैंक  
...the name you can BANK upon!

Whereas, The undersigned being the Authorised Officer of the Punjab National Bank under the Securitisation, Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (54 of 2002) and in exercise of powers conferred under section 13 (12) read with (Rule 3 of Security Interest Enforcement) rules 2002, issued a demand notice dated 12-03-2020 calling upon the borrower M/s Sudhir Agro Oils Pvt. Ltd. through its Directors & Guarantors Mrs. Neeru Khurana W/o Lt. Sh. Sudhir Khurana and Sh. Prem Taneja S/o Lt. Sh. G.R. Taneja, Mr. Saday Khurana S/o Lt. Sh. Sudhir Khurana (Deceased) W/o Sh. Mukesh Khanna and Ms. Sakshi Khurana D/o Lt. Sh. Sudhir Khurana S/o Smt. Kamla Khurana (Deceased) to repay the amount mentioned in the notice being Rs.33,78,46,876.34 (Rs Thirty Three Crores Seventy Eight Lakhs Forty Six Thousand Eight Hundred Seventy Six and Paise Thirty Four only.) as on 19.08.2019 Plus Interest within 60 days from the date of receipt of the said notice.

The borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower and the public in general that the undersigned has taken possession of the properties described herein below in exercise of powers conferred on him/her under sub-section (4) of section 13 of Act read with Rule 8 of the Security Interest Enforcement Rules, 2002 on this 29th day of August of the year 2020.

The borrower in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the properties and any dealings with the properties will be subject to the charge of Punjab National Bank, Wazirpur Ashok Vihar Branch, Phase-I, Delhi-52 for an amount of Rs.33,78,46,876.34 (Rs Thirty Three Crores Seventy Eight Lakhs Forty Six Thousand Eight Hundred Seventy Six and Paise Thirty Four only.) as on 19-08-2019 Plus Interest and other charges thereon.

The Borrower's/Guarantor's/Mortgagor's attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets.

Description of the immovable properties

1) All that part and parcel of Property bearing No. 174, Block-E, in layout plan of Rewari tile, Phase-II situated in Revenue Estate of Village Basai Darapur Known as Mayapuri Industrial Area Phase-II, Delhi Measuring 418.05 Sq. Mtrs. in the name of Smt. Kamla Khurana (Deceased).

2) All that part and parcel of Property bearing No. 7/19, Roop Nagar, Delhi measuring 510 Sq. Yards relinquishment deed for her 1/4 share registered vide document no. 8518 book no. 1, volume no. 1693, on pages 88 to 92 on 05-12-2005. In the name of Smt. Kamla Khurana (Deceased).

3) All that part and parcel of Property bearing No. 7/19, Roop Nagar, Delhi measuring 510 Sq. Yards relinquishment deed registered vide document no. 8517 book no. 1, volume no. 1693, on pages 83 to 87 on 05-12-2005 and relinquishment deed registered vide document no. 8519 book no. 1, volume no. 1693, on pages 93 to 96 on 05-12-2005. In the name of Smt. Neeru Khurana.

Date : 31.08.2020 (Authorised Officer)  
Place : Delhi Punjab National Bank

Form No. INC-26  
(Pursuant to rule 30 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014)  
Before the Central Government  
Regional Director, Northern Region, New Delhi  
In the matter of sub-section (4) of Section 13 of the Companies Act, 2013, and clause (a) of sub-rule (5) of rule 35 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014  
AND  
In the matter of YAMADA JUKU EDUCATIONAL SERVICES LIMITED (CIN: L71000MH1997PLC034528) having its Registered Office at C-585 BASEMENT DEFENCE COLONY, NEW DELHI, OPPOSITE SCHOOL, DELHI-110024  
NOTICE is hereby given to the General Public that the company, proposes to make application to the Central Government under section 13 of the Companies Act, 2013 seeking confirmation of alteration of the Memorandum of Association of the Company in terms of the special resolution passed at the Extra Ordinary General Meeting held on 28th August, 2020, to enable the company to change its Registered office from "National Capital Territory of Delhi" to the "State of Haryana".  
Any person whose interest is likely to be affected by the proposed change of the registered office of the company may deliver other on the MCA 21 portal (www.mca.gov.in) by filing investor complete form or cause to be delivered or send by registered post of this notice with a copy to the applicant company at its Registered office from the address mentioned below:  
C-585 BASEMENT DEFENCE COLONY, NEW DELHI, OPPOSITE SCHOOL, DELHI-110024  
For & on behalf of Applicant  
YAMADA JUKU EDUCATIONAL SERVICES LIMITED  
Sd/- CHIDI YAMADA (Official Time Director)  
Date : 01/09/2020  
Place : New Delhi DIN: 07411728

**IDBI BANK**  
IDBI BANK Ltd., NPA Management Group,  
1st Floor, Videocon Tower, E-1, Jhandewalan Extension,  
New Delhi-110055, 011-6608 3083, 011 6608 4897  
CIN : L65190MH2004GOI148838  
SHOW CAUSE NOTICE  
Borrower: Kwallity Ltd.  
KDIL House, F-82, Shivaji Place, Rajouri Garden, New Delhi - 110027  
Notice is hereby given to the persons mentioned below that the proceedings for identification of Willful Defaulters as laid down by RBI Master Circular has been initiated and the Show Cause Notice issued by IDBI Bank has been returned / un served.  
Name & Address Designation Criteria for Willful Default  
Ms. Ankita Mehrotra 112/205A, Svarup Nagar, Nigam, Kanpur, Uttar Pradesh - 208001 Non-Executive Independent Director 1. Diversion of funds disbursed by Bank. 2. Siphoning off of borrowed funds.  
The above persons, if they desire, may show cause within 15 days from the date of this notice as to why they should not be declared and reported to RBI as Willful Defaulter.  
Your Faithfully  
(Kaveri Krishnamurthy)  
Deputy General Manager  
Date: 01.09.2020

**DEN NETWORKS LIMITED**  
Regd. Office: Unit No.116, First Floor,  
C/Wing Bldg. No. 2 Kailas, Industrial Complex L.B.S. Marg Park Site Vikhroli(W),  
Mumbai, Mumbai city, Maharashtra, India, 400079  
Website: www.dennetworks.com, E-mail: investorrelations@denonline.in  
Phone: +91-22-61289999,  
CIN:L22490MH2007PLC344765

## NOTICE FOR THE ATTENTION OF MEMBERS OF THE COMPANY

### THIRTEENTH ANNUAL GENERAL MEETING AND INFORMATION ON E-VOTING

The thirteenth Annual General Meeting ("AGM") of the Company will be held through Video Conferencing ("VC") on **Wednesday, September 23, 2020** at 04:00 P.M. (IST), in compliance with all the applicable provisions of the Companies Act, 2013 (the Act) and the Rules made there under and the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, read with General Circular No. 14/2020 dated April 08, 2020, General Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020 and General Circular No. 20/2020 dated May 5, 2020 and other applicable circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") and SEBI (collectively referred to as "relevant circulars"), to transact the business set out in the Notice calling the AGM. Members will be able to attend the AGM through VC at: <https://jiomeet.jio.com/dennetworksagm/> or <https://emeetings.kfintech.com>. Members participating through the VC facility shall be reckoned for the purpose of quorum under Section 103 of the Act.

In compliance with the relevant circulars, the Notice of the AGM and the standalone and consolidated financial statements for the financial year 2019-20, along with Board's Report, Auditors' Report and other documents required to be attached thereto, have been sent on Monday, August 31, 2020 to the Members of the Company whose email addresses are registered with the Company/ Company's Registrar and Transfer Agent, KFin Technologies Private Limited (KFin)/Depository Participant(s). The aforesaid documents are also available on the Company's website at [www.dennetworks.com](http://www.dennetworks.com) and on the website of the Stock Exchanges, i.e., BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com), respectively, and on the website of KFin at <https://evoting.karvy.com>.

The documents referred to in the Notice of the AGM are available electronically for inspection without any fee by the members from the date of circulation of this Notice up to the date of AGM.

Members seeking to inspect such documents can send an email to [investorrelations@denonline.in](mailto:investorrelations@denonline.in).

### Instructions for remote e-voting and e-voting at the AGM

The Company is providing to its Members facility to exercise their right to vote on resolutions proposed to be passed at the AGM by electronic means ("e-voting"). The Company has engaged the service of KFin as the agency to provide the e-voting facility. Members may cast their votes remotely, using the electronic voting system of KFin on the dates mentioned herein below ("remote e-voting").

Further, the facility for voting through electronic voting system will also be made available at the AGM ("Insta Poll") and members attending the AGM who have not cast their vote(s) by remote e-voting will be able to vote at the AGM through Insta Poll.

Information and instructions including details of user id and password relating to e-voting have been sent to the members through e-mail. The same login credentials should be used for attending the AGM through VC.

The manner of remote e-voting and voting by Insta Poll by members holding shares in dematerialized mode, physical mode and for members who have not registered their e-mail addresses is provided in the Notice of the AGM and is also available on the website of the Company: [www.dennetworks.com](http://www.dennetworks.com) and on the website of the Stock Exchanges, i.e., BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com), respectively, and on the website of KFin, at <https://evoting.karvy.com>.

The remote e-voting facility will be available during the following voting period:

Commencement of Remote e-voting 9:00 A.M. on Saturday, 19th September, 2020  
End of Remote e-voting 5:00 P.M. on Tuesday, 22nd September, 2020

The remote e-voting will not be allowed beyond the aforesaid date and time and the remote e-voting module shall be forthwith disabled by KFin upon expiry of the aforesaid period.

A person, whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date, i.e., **Wednesday, 16th September, 2020** only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or for participation at the AGM and voting through Insta Poll.

### Manner of registering / updating email addresses:

- Members holding shares in physical mode, who have not registered / updated their email addresses with the Company, are requested to register/update the same by writing to the Company with details of folio number and attaching a self-attested copy of PAN card at [investorrelations@denonline.in](mailto:investorrelations@denonline.in) or KFin at [einward.rs@kfintech.com](mailto:einward.rs@kfintech.com).

- Members holding shares in dematerialized mode, who have not registered / updated their email addresses with their Depository Participants, are requested to register / update their email addresses with the Depository Participant(s) with whom they maintain their demat accounts.

After due verification, the Company / KFin will forward their login credentials to their registered email address.

- Any person who becomes a member of the Company after dispatch of the Notice of the AGM and holding shares as on the cut-off date may obtain the User ID and password in the manner as provided in the Notice of the AGM, which is available on Company's website and KFin's website.

- Such members may cast their votes using the e-voting instructions, in the manner specified by the Company in the Notice of AGM.

The members who have cast their vote(s) by remote e-voting may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote(s) again at the AGM.

In case of any query pertaining to e-voting, members may refer to the 'Help' and 'FAQs' sections / E-voting user manual available through a dropdown menu in the 'Downloads' section of KFin website for e-voting: <https://evoting.karvy.com>.

Members are requested to note the following contact details for addressing queries / grievances, if any:

KShi Raj Kumar Kale, Senior Manager  
KFin Technologies Private Limited  
Selenium Tower B, Plot 31-32, Gachibowli, Financial District,  
Nanakramguda, Hyderabad 500 032  
Phone No: +9146 7162222, Toll-free No: 1800-345-4001

By order of the Board of Directors  
For DEN Networks Limited  
Sd/-  
Jatin Mahajan  
Company Secretary  
FCS No. : F6887

Date: August 31, 2020  
Place: New Delhi

**SRG HOUSING FINANCE LIMITED**  
321, S.M. Lodha Complex, Near Shastri Circle, Udaipur (Raj): 313001 CIN: L65922RJ1999PLC015440  
website: [www.srghousing.com](http://www.srghousing.com), email: [info@srghousing.com](mailto:info@srghousing.com) phone no: 0294-2561882, 2412609  
**NOTICE OF 21ST ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCE (VC) OR OTHER AUDIO VISUAL MEANS (OAVM) AND BOOK CLOSURE**  
Notice is hereby given that 21st Annual General Meeting of the members of the Company will be held on Thursday September 24, 2020 at 12:15 pm. through Video Conference (VC) or Other Audio Visual Means (OAVM) to transact the Business as set out in the notice of the 21st AGM in compliance with Ministry of Corporate Affairs (MCA) has vide its circular dated May 5, 2020 read with circulars dated April 8, 2020 and April 13, 2020 (collectively referred to as "MCA Circulars") and SEBI circular dated May 12, 2020 and all other applicable provisions of Companies Act, 2013 and SEBI Regulations. Notice of AGM along with the Annual Report 2019-20 were sent on 30th & 31st August 2020 only through electronic mode to those Members whose email addresses are registered with the Company/RTA/Depositories in accordance with aforesaid circulars. Members may note that the aforesaid documents will also be made available on the Company's website [www.srghousing.com](http://www.srghousing.com), websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited at [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and on the website of NSDL [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com).  
In compliance with Section 108 of Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended from time to time and SEBI Regulations, the Company is providing remote e-voting facility and facility of e-voting system during the AGM (collectively referred to as "electronic voting") provided by NSDL.  
The complete details of casting votes through electronic voting are given in the Notice of 21st AGM. The voting rights of the Members shall be in proportion to equity shares held by them in the paid-up equity share capital of the Company as of closing hours of Thursday 17th September, 2020. (Cut off date).  
Notice is further given that the Company is providing remote e-voting facility to all its Members to exercise their rights to vote on all the resolutions listed in the Notice of AGM and has availed the facility from NSDL for e-voting and VC. Some of the important details regarding electronic voting are provided below:-  
Link for Electronic Voting and VC [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com)  
EVEN (E-voting Event Number) 113560  
Cut off Date for determining Entitlement of Electronic Voting Thursday 17th September, 2020.  
Commencement of remote e-voting Monday, 21-09-2020, 09:00 A.M  
End of remote e-voting Wednesday, 23-09-2020, 05:00 P.M.  
The e-voting shall not be allowed beyond 23.09.2020 at 05:00 pm. Those Members who shall be present in the AGM through VC/OAVM facility and had not cast their votes on the resolutions through remote e-voting and are otherwise not barred for doing so, shall be eligible to vote through e-voting system at the AGM.  
The Members who have cast their votes by remote e-voting prior to the AGM may also attend/participate in the AGM through VC/OAVM but shall not be entitled to cast their votes again. Any person who acquires shares of the Company and becomes member after the dispatch of the Notice of AGM and holds share on cut off date, may obtain the User ID and password for e-voting by sending a request at [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in) or [info@srghousing.com](mailto:info@srghousing.com).  
In case the Members who have not registered their email addresses please provide DPID-CLID (16 digit DPID + CLID or 16 digit beneficiary ID), Name, client master or copy of Consolidated Account statement, PAN (self attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self attested scanned copy of Aadhar Card) by email to [info@srghousing.com](mailto:info@srghousing.com) / [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in).  
Further Notice is given that pursuant to Section 91 of Companies Act, 2013 read with rules framed thereunder and Regulation 42 of SEBI Listing Regulations, Register of Members and Share Transfer books of the Company shall remain closed from Friday 18th September, 2020 till Thursday 24th September, 2020 (both days inclusive) for the purpose of 21st Annual General Meeting of the company.  
In case of any queries, you may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) for Members and remote e-voting user manual for members available at the downloads section of the website [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com) or call on toll free no: 1800-222-990 or Contact NSDL at 022-2499454 or e-mail [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in). For any queries/grievances, in relation to e-voting, Members may contact Ms. Sunaina Nagar, Company Secretary Tel: 0294-2561882 and email [info@srghousing.com](mailto:info@srghousing.com) at 321, S.M. Lodha Complex, Near Shastri Circle, Udaipur.  
Mr. Shiv Hari Jalan, Practicing Company Secretary has been appointed as Scrutinizer to scrutinize the e-voting process in fair and transparent manner.  
Place: Udaipur  
Date: 31-08-2020  
For SRG Housing Finance Limited  
Sd/-  
Sunaina Nagar (Company Secretary) M.No: A40754

**CCL INTERNATIONAL LIMITED**  
CIN: L26940DL1991PLC044520  
REGD.OFF. : M-4, GUPTA TOWER, B 1/1, COMMERCIAL COMPLEX, AZADPUR, NEW-DELHI-110 033  
Corp. Office : C-42, RDC, RAJ NAGAR GHAZIABAD-201002  
Phone: 0120-4214258 Email ID: [mpsec@ccl.com](mailto:mpsec@ccl.com), Website: [www.evotereindia.com](http://www.evotereindia.com)

## EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30TH JUNE, 2020

| Particulars  | Standalone                         |                                  |                                    |                               |
|--|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
|  | Quarter ended 30.06.2020 Unaudited | Quarter ended 31.03.2020 Audited | Quarter ended 30.06.2019 Unaudited | Year ended 31.03.2020 Audited |
| Total income from operations   | 538.82                             | 1,015.61                         | 618.28                             | 2,920.36                      |
| Net Profit / (loss) for the period (before Tax; exceptional and extraordinary items)   | (12.26)                            | (46.86)                          | 12.57                              | 218.80                        |
| Net Profit / (loss) for the period before Tax (after exceptional and extraordinary items)  | (12.26)                            | (46.86)                          | 12.57                              | 218.80                        |
| Net profit/(loss) for the period after tax   | (7.51)                             | (47.24)                          | 9.30                               | 213.73                        |
| Total comprehensive income for the period [Comprising profit/(loss) for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax)] | -                                  | -                                | -                                  | -                             |
| Equity share capital (Face Value of Rs. 10/-)  | 1,919.26                           | 1,919.26                         | 1,919.26                           | 1,919.26                      |
| Reserves (excluding revaluation reserve) as shown in the audited balance sheet   | -                                  | -                                | -                                  | 2,623.31                      |
| Earnings per share   |                                    |                                  |                                    |                               |
| (1) Basic  | (0.04)                             | (0.25)                           | 0.05                               | 1.11                          |
| (2) Diluted  | (0.04)                             | (0.25)                           | 0.05                               | 1.11                          |

Note:  
The above is an extract of the detailed format of Unaudited Financial Results for the Quarter ended 30.06.2020 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the said Financial Results is available on the websites of the Stock Exchange at [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and on the website of the Company at [www.evotereindia.com](http://www.evotereindia.com).

For and behalf of Board of Directors  
CCL International Limited  
Sd/-  
Rama Gupta  
Managing Director  
DIN : 00080613  
Sd/-  
Akash Gupta  
Director  
DIN : 01940481  
Date: 31st Day of August 2020  
Place: New Delhi

**RIBA TEXTILES LIMITED**  
CIN:L18101DL1989PLC034528  
Regd. Office: DD-14, Nehru Enclave, Opp. Kalkaji Post office, New Delhi-110019.  
E-Mail: [companyaffairs@ribatextiles.com](mailto:companyaffairs@ribatextiles.com), Website: [www.ribatextiles.com](http://www.ribatextiles.com), Tel. No.: 011-26239886

## EXTRACT OF STANDALONE FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30/06/2020

| Sl. No. | Particulars  | Amount in Lacs (Rs.)                       |  |  |                               |
|---------|--|--|--|--|-------------------------------|
|         |  | Quarter ending as on 30/06/2020 Un-audited | Proceeding 3 months ended 31/03/2020 Audited | Quarter ended in the previous year 30/06/2019 Un-audited | Year ended 31/03/2020 Audited |
| 1       | Total income from operations   | 1911.10                                    | 5271.95                                      | 3679.58  | 17772.17                      |
| 2       | Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)  | 169.24                                     | 81.93  | 141.75   | 866.10                        |
| 3       | Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)   | 169.24                                     | 81.93  | 141.75   | 866.10                        |
| 4       | Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)  | 152.24                                     | 41.69  | 101.75   | 673.42                        |
| 5       | Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)] | 152.24                                     | 41.69  | 101.75   | 673.42                        |
| 6       | Equity Share Capital   | 965.29                                     | 965.29                                       | 965.29   | 965.29                        |
| 7       | Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Balance Sheet of the previous year)  | NA   | NA   | NA   | 5364.93                       |
| 8       | Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations) - Basic:  | 1.58                                       | 0.43   | 1.05   | 6.98                          |
|         | Diluted:   | 1.58                                       | 0.43   | 1.05   | 6.98                          |

Note:  
The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the stock exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the Stock Exchange websites [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and on the Company's Website [www.ribatextiles.com](http://www.ribatextiles.com).

By order of the Board  
For RIBA TEXTILES LIMITED  
Sd/-  
(Ravinder Kumar Garg)  
Chairman & Whole time Director  
DIN:00202164  
Place : Panipat  
Date : 31.08.2020  
Kishore House, Assandh Road, Panipat, 132103 Haryana

**HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD.**  
Northern Regn. Office : The Capital Court, Munirka, Outer Ring Road, Old Palmie Marge, New Delhi - 67  
Tel.: 011-41115111, CIN L71000MH1977PLC019916, Website: [www.hdfc.com](http://www.hdfc.com)

## POSSESSION NOTICE

Whereas the Authorised Officer/s of Housing Development Finance Corporation Limited, under Securitisation And Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under Section 13 (12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued Demand Notices under Section 13 (2) of the said Act, calling upon the following borrower(s) / Legal Heir(s) and Legal Representative(s) to pay the amounts mentioned against their respective names together with interest thereon at the applicable rates as mentioned in the said notices, within 60 days from the date of the said Notice/s, incidental expenses, costs, charges etc till the date of payment and / or realisation.

| Sr. No. | Name of Borrower(s) / Legal Heir(s) and Legal Representative(s)/ Loan Account Nos. | Outstanding Dues  | Date of Demand Notice | Date of Physical Possession | Description of Immovable Property(ies)/Secured Asset(s)  |
|---------|--|---|-----------------------|-----------------------------|--|
| 1.      | MR LOKESH SINGH & MRS APURVA KHURANA<br>LOAN ACCOUNT NO. 607997199                 | Rs. 27,61,015/- (Rupees Twenty Seven Lakh Sixty One Thousand and Fifteen Only) due as on 31-JAN-19* | 04-APR-19             | 29-AUG-2020 (SYMBOLIC)      | E1-805, 8TH FLOOR, VATIKA GURGAON 21 NEXT TOWER E-1, SECTOR 82, 83, NATIONAL HIGHWAY- 7, GURGAON WITH UNDIVIDED PROPORTIONATE SHARE OF LAND UNDERNEATH |

\*with further interest as applicable, incidental expenses, costs, charges etc incurred till the date of payment and / or realisation.  
However, since the borrowers mentioned hereinabove has failed to repay the amounts due, notice is hereby given to the borrowers / Legal Heir(s) and Legal Representative(s) mentioned hereinabove in particular and to the public in general that the Authorised Officer of HDFC has taken **Symbolic Possession** of the immovable property / secured asset described herein above in exercise of powers conferred on him under Section 13 (4) of the said Act read with Rule 8 of the said Rules on the dates mentioned above.

The borrower(s) / Legal Heir(s) and Legal Representative(s) mentioned hereinabove in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the aforesaid Immovable Property / Secured Asset and any dealings with the said Immovable Property / Secured Asset will be subject to the mortgage of Housing Development Finance Corporation Ltd.

Borrower(s) / Legal Heir(s) / Legal Representative(s) attention is/are invited to the provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available to redeem the secured asset/s.

Copies of the Panchnama drawn are available with the undersigned, and the said Borrower(s) / Legal Heir(s) / Legal Representative(s) is / are requested to collect the respective copies from the undersigned on any working day during normal office hours.

Place: Delhi  
Date : 31-AUG-2020  
For Housing Development Finance Corporation Ltd.  
Sd/-  
Regd Office: Ramon House, H.T. Parekh Marg, 169, Backbay Reclamation, Churchgate Mumbai-400 020  
Authorised Officer

Form No. INC-25A  
Before the Regional Director, Ministry of Corporate Affairs Northern Region  
In the matter of the Companies Act, 2013, section 14 of Companies Act, 2013 and rule 41 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014  
AND In the matter of M/s STOCKHOLDERS BENEFIT CLUB, a Company registered under section 25 of the erstwhile Companies Act, 1956 and having registered office at 416 Pratap Bhawan 5 Bahadur Shah Zafar Marg New Delhi-110002  
Notice is hereby given to the general public that the company intending to make an application to the Central Government under section 14 of the Companies Act, 2013 read with aforesaid rules and is desirous of converting into a private limited company (without effecting the status of the Company which is registered under section 8 of the Companies Act, 2013) in terms of the special resolution passed at the Annual General Meeting held on 31st August, 2020 to enable the company to give effect for such conversion.  
Any person whose interest is likely to be affected by the proposed change of status of the company may deliver or cause to be delivered or send by registered post of this notice supported by an affidavit stating the nature of his interest and grounds of opposition to the concerned Regional Director (Northern Region Branch, New Delhi B-2 Wing, 2nd Floor, Parvathan Bhawan, CGO Complex, New Delhi-110003), within fourteen days from the date of publication of this notice with a copy to the applicant company i.e. Stockholders Benefit Club at its registered office at the address mentioned below:  
For STOCKHOLDERS BENEFIT CLUB  
Manish Kumar Tiwari (Director)  
(DIN: 08193460)  
Address of registered office: 416 Pratap Bhawan 5 Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002  
Date: 01.09.2020; Place: New Delhi

**PEARL POLYMERS LIMITED**  
CIN No. L25209DL1971PLC005535  
Regd. Office : A-97/2, Okhla Industrial Area, Phase-II, New Delhi - 110020, INDIA  
Tel. No.: +91-11-47385300, Fax : +91-11-47480746  
Email : [pearl@pearlpet.net](mailto:pearl@pearlpet.net), Web : [www.pearlpet.net](http://www.pearlpet.net)

## Extract of Unaudited Financial Results for the quarter ended June 30, 2020

|         |  | (Rs. in lakhs)            |                           |                           |                         |
|---------|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|
|         |  | For quarter ended         |                           |                           |                         |
| Sl. No. | Particulars  | 30.06.2020<br>(Unaudited) | 31.03.2020<br>(Unaudited) | 30.06.2019<br>(Unaudited) | 31.03.2020<br>(Audited) |
| 1       | 2  | (3)                       | (4)                       | (5)                       | (6)                     |
| 1       | Total income from operations (net)   | 2,362.50                  | 3,292.50                  | 4,170.25                  | 14,204.58               |
| 2       | Net Profit / (Loss) for the period (before Tax and Exceptional Items)  | (102.79)                  | (325.79)                  | (188.52)                  | (1,246.78)              |
| 3       | Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional Items)  | (102.79)                  | (325.79)                  | (188.52)                  | (1,246.78)              |
| 4       | Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional Items)   | (102.79)                  | (193.89)                  | (188.52)                  | (1,114.88)              |
| 5       | Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)] | (94.76)                   | (164.36)                  | (187.22)                  | (1,082.76)              |
| 6       | Equity Share Capital   | 1,682.68                  | 1,682.68                  | 1,682.68                  | 1,682.68                |
| 7       | Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year  |                           |                           |                           | 1,775.77                |
| 8       | Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations)   |                           |                           |                           |                         |
|         | 1. Basic   | (0.61)                    | (1.15)                    | (1.12)                    | (6.63)                  |
|         | 2. Diluted   | (0.61)                    | (1.15)                    | (1.12)                    | (6.63)                  |



